



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 31—अप्रैल 6, 2019, शनिवार/चैत्र 10—चैत्र 16, 1941

No. 10] NEW DELHI, MARCH 31—APRIL 6, 2019, SATURDAY/CHAITRA 10—CHAITRA 16, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

## रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2019

**का.नि.आ. 36.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वायुसेना के अस्पताल में ज्येष्ठ आहारविद्, आहारविद् और नैदानिक मनोवैज्ञानिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुसेना (ज्येष्ठ आहारविद्, आहारविद् और नैदानिक मनोवैज्ञानिक) सिविलियन्स (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना .**— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- आरंभिक गठन .**— ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख से पूर्व नियमित आधार पर पद पर नियुक्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा उक्त प्रवर्तन की तारीख से पूर्व उक्त पद पर की गई सेवा को परिवीक्षा, पेंशन के प्रयोजनों के लिए और अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए गणना में लिया जाएगा।

6. **निरर्हता .-** वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है ; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है ,
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति .-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति .-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ आहारविद्	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<b>प्रोन्नति :</b> वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ऐसे आहारविद् जिन्होंने इस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट मान्यताप्राप्त संस्थान से दो से चार सप्ताह का सुसंगत क्षेत्र में अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। <b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में	<b>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b> 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष 2. सहायक प्रमुख वायु स्टाफ (चिकि.), चिकित्सा सेवा (वायु) महानिदेशालय, वायु सेना मुख्यालय - सदस्य 3. निदेशक या उपसचिव वायु-1, रक्षा मंत्रालय - सदस्य 4. निदेशक चिकित्सा सेवा, चिकित्सा सेवा (वायु) महानिदेशालय, वायु सेना मुख्यालय - सदस्य। <b>समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में)</b>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :**

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी संगठन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय से ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.) में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो, और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-

(i) खाद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहार-विद्या या खाद्य विज्ञान और पोषण या खाद्य और पोषण आहार-विद्या या आहार-विद्या और खाद्य सेवा प्रबंधन में मास्टर डिग्री; या

(ii) (क) खाद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहार-विद्या या खाद्य विज्ञान और पोषण या खाद्य और पोषण आहार-विद्या या आहार-विद्या और खाद्य सेवा प्रबंधन में, विज्ञान में स्नातक;

(ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आहार-विद्या में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या विश्वविद्यालय या

**विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-**

1. सहायक प्रमुख वायु स्टाफ (चिकि.), चिकित्सा सेवा (वायु) महानिदेशालय, वायु सेना मुख्यालय - अध्यक्ष
2. निदेशक या उपसचिव वायु-1, रक्षा मंत्रालय - सदस्य
3. निदेशक चिकित्सा सेवा, चिकित्सा सेवा (वायु) महानिदेशालय, वायु सेना मुख्यालय - सदस्य

<p>मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के सौ बिस्तरों वाले अस्पताल में आहार-विद्या में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव रखता हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. आहारविद्	6* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता	<p>तीस वर्ष से अधिक नहीं।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक :</b></p> <p>(क) खाद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहार-विद्या या खाद्य विज्ञान और पोषण या खाद्य और पोषण आहार-विद्या या आहार-विद्या और खाद्य सेवा प्रबंधन में मास्टर डिग्री ; या</p> <p>(ख) (i) खाद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहार-विद्या या खाद्य विज्ञान और पोषण या खाद्य और पोषण आहार-</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>टिप्पण :</b> “पदधारी के प्रतिनियुक्त होने या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :-</p>

<p>विद्या या आहार-विद्या और खाद्य सेवा प्रबंधन में, विज्ञान में स्नातक ;</p> <p>(ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आहार-विद्या में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ;</p> <p>(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के सौ बिस्तरों वाले अस्पताल में आहार-विद्या में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव रखता हो ।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।</p>			<p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।"</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	<p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सहायक प्रमुख वायु स्टाफ (चिकि.), चिकित्सा सेवा (वायु) महानिदेशालय, वायु सेना मुख्यालय - अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक चिकित्सा सेवा, चिकित्सा सेवा (वायु) महानिदेशालय, वायु सेना मुख्यालय - सदस्य</li> <li>3. सम्बन्धित वायु सेना अस्पताल या स्थापन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या समकक्ष अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. नैदानिक मनोवैज्ञानिक	6* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता	<p>35 वर्ष से अधिक नहीं ।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल</p>

					प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक :</b></p> <p>(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री ; और</p> <p>(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या मान्यताप्राप्त अस्पताल या चिकित्सा संस्थान से मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) :</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी संगठन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय से ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.) में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में</p>	<p><b>समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>महानिदेशक चिकित्सा सेवा (वायु), वायु सेना मुख्यालय - अध्यक्ष ;</li> <li>संयुक्त सचिव (वायु), रक्षा मंत्रालय - सदस्य</li> <li>संबंधित वायु सेना अस्पताल या स्थापन के चिकित्सा अधीक्षक / संकायाध्यक्ष या समकक्ष अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, या</p> <p>(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो, और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

[फा.सं. वा. से. मु. /23049/आर आर/ए एफ एच/पी सी (आर आर और खेलकूद)/116/र. (नि.)]

एस एस एस शर्मा, निदेशक (स्थापना एवं सी पी)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 25th March, 2019

**S.R.O. 36.—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Dietician, Dietician and Clinical Psychologist in the hospitals of Indian Air Force, namely : —

1. **Short title and commencement:** (1) These rules may be called the Indian Air Force (Senior Dietician, Dietician and Clinical Psychologist) Civilians (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix or pay scale.** — The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment to the said posts, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Initial constitution.** — The incumbents holding the said posts on regular basis on the date of commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed under these rules and the services rendered by them in the said post on regular basis before the said commencement shall be taken into account for deciding their probation period, pensionary benefits and eligibility for promotion to the next higher grade.

6. **Disqualification.** — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax** . – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving** . – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether Selection post or Non-Selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Dietician	1 * (2019)  * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level –10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<b>Promotion:</b> Dietician in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with eight years regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of two to four weeks in the relevant area, from a recognised Institute to be specified by the Ministry. <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and	<b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairman or Member of Union Public Service Commission - Chairman;</li> <li>Assistant Chief of Air Staff (Med), Directorate General of Medical Services (Air), Air Headquarters - Member;</li> <li>Director or Deputy Secretary Air-I, Ministry of Defence - Member;</li> <li>Director Medical Services, Directorate General of Medical Services (Air), Air Headquarters - Member.</li> </ol> <b>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)</b>	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.



<p>have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation (including short term contract):</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union Territory or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisation or recognised research institutions or Universities:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600 - 151100) in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) in the parent cadre or department; or</p> <p>(iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Master Degree in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food Science and Nutrition or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management;</p> <p>or</p> <p>(ii)(A) Bachelor of Science in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food Science and Nutrition or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management;</p> <p>(B) Post Graduate Diploma in Dietetics from a recognised University or Institute.</p> <p>(iii) Three years' practical experience in Dietetics in a hundred bedded hospital of the Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or Public</p>	<p><b>consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assistant Chief of Air Staff (Med), Directorate General of Medical Services (Air), Air Headquarters - Chairman;</li> <li>2. Director or Deputy Secretary Air-I, Ministry of Defence - Member;</li> <li>3. Director Medical Services, Directorate General of Medical Services (Air), Air Headquarters - Member.</li> </ol>	
--	--	--

<p>Sector Undertakings or Universities or recognised research institutes.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Dietician	6 * (2019) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 in the pay matrix (Rs 35400-112400)	Not applicable	Not exceeding 30 years. <b>Note 1:</b> (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note 2:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(a) Master Degree in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food Science and Nutrition or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management;</p>	Not applicable	Two years	<p>By direct recruitment</p> <p><b>Note:</b> "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:-</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p>

<p>or</p> <p>(b) (i) Bachelor of Science in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food Science and Nutrition or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management;</p> <p>(ii) Post Graduate Diploma in Dietetics from a recognised University or Institute;</p> <p>(iii) one year practical experience in Dietetics in a hundred bedded hospital of the Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking or Universities or recognised research institutes.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>			<p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7)".</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	---

(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assistant Chief of Air Staff (Med), Directorate General of Medical Services (Air), Air Headquarters -Chairman;</li> <li>2. Director Medical Services, Directorate General of Medical Services (Air), Air Headquarters - Member;</li> <li>3. C Adm O or equivalent officer of the concerned Air Force Hospital or Establishment - Member.</li> </ol>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Clinical Psychologist	<p>6 *</p> <p>(2019)</p> <p>* Subject to variation dependent</p>	General Central Service, Group 'A', Gazetted,	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Not applicable	<p>Not exceeding 35 years.</p> <p><b>Note 1:</b> (Relaxable for Government</p>

	on work load	Non-Ministerial			servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note 2:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.
--	--------------	-----------------	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(a) Post Graduate Degree in Psychology from a recognised University or recognised Institution; and</p> <p>(b) three years experience of working as a Psychologist in the Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised research institution or recognised hospital or medical institute.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation (including short term contract):</b>  Officer under the Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisation or recognised research institutions or Universities:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) in the parent cadre or department; or  (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) in the parent cadre or department; or  (iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) in the parent cadre or department; and  (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits in column (7).  <b>Note 1:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.  <b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p><b>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b>  1. Director General Medical Services (Air),  Air Headquarters - Chairman;  2. Joint Secretary (Air), Ministry of Defence -Member;  3. Medical Superintendent/Dean or equivalent officer of the concerned Air Force Hospital or Establishment- Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary.</p>

[F. No. Air HQ/23049/RRs/AFH/PC-RRs & Sports/116/D(Apptts)]  
S.S.S. SARMA, Director (Estt & CP)

**(रक्षा उत्पादन विभाग)**

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2019

**का.नि.आ. 37.**—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता की निम्नलिखित निर्माणी को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

आयुध निर्माणी परियोजना, कोरवा

जिला- अमेठी, उत्तर प्रदेश

पिन-227412

[फा. सं. 5 (2) 2011-रक्षा (रा.भा.-2)]

आनंद प्रकाश मिश्र, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

**(Department of Defence Production)**

New Delhi, the 27th March, 2019

**S.R.O. 37.**—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies the following factory of Ordnance Factory Board, Kolkata more than 80 % staff whereof has acquired working knowledge of Hindi:-

Ordnance Factory Project, Korwa

Distt. Amethi, Uttar Pradesh

Pin-227412

[F. No. 5 (2) 2011-D (OL-2)]

ANAND PRAKASH MISHRA, Jt. Director (OL)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2019

**का.नि.आ. 38.**—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता के निम्नलिखित संस्थान को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान

आवडी, चेन्नई,

पिन-600054

[फा. सं. 5 (2) 2011-रक्षा (रा.भा.-2)]

आनंद प्रकाश मिश्र, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

New Delhi, the 27th March, 2019

**S.R.O. 38.**— In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies the following Institute of Ordnance Factory Board, Kolkata more than 80 % staff whereof has acquired working knowledge of Hindi:-

Ordnance Factories Institute of Learning

Avadi, Chennai,

Pin-600054

[F. No. 5 (2) 2011-D (OL-2)]

ANAND PRAKASH MISHRA, Jt. Director (OL)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2019

**का.नि.आ. 39.**—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता की निम्नलिखित अकादमी को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी

अंबाझरी, नागपुर,

पिन-440021

[फा. सं. 5 (2) 2011-रक्षा (रा.भा.-2)]

आनंद प्रकाश मिश्र, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

New Delhi, the 27th March, 2019

**S.R.O. 39.**—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies the following Academy of Ordnance Factory Board, Kolkata more than 80 % staff whereof has acquired working knowledge of Hindi:-

National Academy of Defence Production

Ambajhari, Nagpur,

Pin-440021

[F. No. 5 (2) 2011-D (OL-2)]

ANAND PRAKASH MISHRA, Jt. Director (OL)

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

**का. नि. आ. 40.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर (समूह 'ग' औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 2015 को संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रिमाउंट पशु चिकित्सा कोर, समूह 'ग' औद्योगिक पद भर्ती (संशोधन) नियम 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर (समूह 'ग' औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 2015 में-

(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

**"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं"-

(ख) अनुसूची में, -

(1) लुहार के पद के संबंध में, क्रम संख्या 1 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में स्तम्भ शीर्ष एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्ष एवं प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 2
(19,900 - 63,200 रु.)”

(2) कारपेन्टर के पद के संबंध में, क्रम सं. 2 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

<p style="text-align: center;">“स्तर 2</p> <p style="text-align: center;">(19,900 - 63,200 रु.)”</p>
--

(3) मोची/बूटमेकर के पद के संबंध में, क्रम सं. 3 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

<p style="text-align: center;">“स्तर 2</p> <p style="text-align: center;">(19,900 - 63,200 रु.)”</p>
--

(4) हेड मिस्त्री के पद के संबंध में, क्रम सं. 4 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

<p style="text-align: center;">“स्तर 3</p> <p style="text-align: center;">(21,700 - 69,100 रु.)”</p>
--

(ii) स्तम्भ (11) में, “टिप्पण 2” का लोप किया जाएगा

(5) पेन्टर के पद के संबंध में, क्रम सं. 5 के सामने-

(i) स्तम्भ (5) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

<p style="text-align: center;">“स्तर 2</p> <p style="text-align: center;">(19,900 - 63,200 रु.)”</p>
--

(6) दर्जी के पद के संबंध में, क्रम सं. 6 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

<p style="text-align: center;">“स्तर 2</p> <p style="text-align: center;">(19,900 - 63,200 रु.)”</p>
--

(7) नालबंद के पद के संबंध में, क्रम सं. 7 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

<p style="text-align: center;">“स्तर 2</p>
--



(19,900 - 63,200 रु.)”
------------------------

(8) हथौड़िया (हैमरमैन) के पद के संबंध में, क्रम सं. 8 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“स्तर 2
---------

(19,900 - 63,200 रु.)”
------------------------

[फा. सं. 80270/क्यू/आर वी-1(औद्योगिक)/आर आर/605/डी(नियुक्तियां)/2018]

एस. एस. एस शर्मा, निदेशक (स्थापना एवं सी.पी.)

**टिप्पण:-** मूल नियम तारीख 18 मई 2015 की अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 20 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-4 में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 8th March, 2019

**S.R.O. 40.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby making the following rules to amend the Remount and Veterinary Corps (Group ‘C’ Industrial posts) Recruitment Rules, 2015, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Remount Veterinary Corps, Group ‘C’ Industrial posts Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Remount and Veterinary Corps (Group ‘C’ Industrial posts) Recruitment Rules, 2015,

(A) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

**“2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules”.-

(B). in the Schedule, —

(1) against serial number 1, relating to the post of Blacksmith, —

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in pay matrix
(4)
Level 2
(Rs.19,900-63,200)”.

(2) against serial number 2, relating to the post of Carpenter, -

(i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

“Level 2
(Rs.19,900-63,200)”.

(3) against serial number 3, relating to the post of Cobbler/Bootmaker,

- (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

“Level 2  
(Rs.19,900-63,200)”.

- (4) against serial number 4, relating to the post of Head Mistry,-

- (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :-

“Level 3  
(Rs.21,700 - 69,100)”.

- (ii) in Column (11), “Note 2” shall be omitted

- (5) against serial number 5, relating to the post of Painter,—

- (i) in column (5), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

“Level 2  
(Rs.19,900-63,200)”.

- (6) against serial number 6, relating to the post of Tailor, —

- (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :-

“Level 2  
(Rs.19,900-63,200)”.

- (7) against serial number 7, relating to the post of Nalband, —

- (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :-

“Level 2  
(Rs.19,900-63,200)”.

- (8) against serial number 8, relating to the post of Hammerman, —

- (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :-

“Level 2  
(Rs.19,900-63,200)”.

[F. No. 80270/Q/RV-1(Non-Industrial)/RR/605/D(Apptts)/2018]

S.S.S. SARMA, Director (Estt & CP)

**Note: -** The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section -4 vide notification number S.R.O.20 dated the 18<sup>th</sup> May 2015.

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

**का. नि. आ. 41.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर (समूह 'ग' गैर औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 2015 को संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रिमाउंट पशु चिकित्सा कोर, समूह 'ग' गैर औद्योगिक पद भर्ती (संशोधन) नियम 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर (समूह 'ग' गैर-औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 2015 में-

(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

**"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं"-

(ख) अनुसूची में, -

(1) फार्म मुंशी के पद के संबंध में, क्रम संख्या 1 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में स्तम्भ शीर्ष एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्ष एवं प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 1 (18,000 - 56,900 रु.)”

(2) मस्टर लेखक के पद के संबंध में, क्रम सं. 2 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“स्तर 1 (18,000 - 56,900 रु.)”
-----------------------------------

(3) कोचमैन के पद के संबंध में, क्रम सं. 3 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“स्तर 1 (18,000 - 56,900 रु.)”
-----------------------------------

(ii) स्तम्भ (10), मद सं0 (क) की उप मद संख्या (ii) में शब्द, अंक और अक्षर “वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन रु0 1800” के स्थान पर शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18,000-56,900 रु.)” रखे जाएंगे।

(4) फार्म जमादार के पद के संबंध में, क्रम सं. 4 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

<p style="text-align: center;">“स्तर 2</p> <p style="text-align: center;">(19,900 - 63,200 रु.)”</p>
--

(ii) स्तम्भ (11) में, “टिप्पण 2” का लोप किया जाएगा।

(5) लाइन जमादार के पद के संबंध में, क्रम सं. 5 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

<p style="text-align: center;">“स्तर 2</p> <p style="text-align: center;">(19,900 - 63,200 रु.)”</p>
--

(ii) स्तम्भ (11) में, “टिप्पण 2” का लोप किया जाएगा।

(6) मुख्य पशु ड्रेसर के पद के संबंध में, क्रम सं. 6 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

<p style="text-align: center;">“स्तर 2</p> <p style="text-align: center;">(19,900 - 63,200 रु.)”</p>
--

(ii) स्तम्भ (11) में, “टिप्पण 2” का लोप किया जाएगा।

(7) पशु ड्रेसर के पद के संबंध में, क्रम सं. 7 के सामने-

(i) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

<p style="text-align: center;">“स्तर 2</p> <p style="text-align: center;">(18,000 - 56,900 रु.)”</p>
--

(8) तुलाईकार (वेमैन) के पद के संबंध में, क्रम सं. 8 के सामने-

(i) स्तर (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

<p style="text-align: center;">“स्तर 1</p> <p style="text-align: center;">(18,000 - 56,900 रु.)”</p>
--

(9) बेलदार के पद के संबंध में, क्रम सं 9 के सामने-

- (ii) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“स्तर 1

(18,000 - 56,900 रु.)”

[फा. सं 80270/क्यू/आर वी-1(गैर औद्योगिक)/आर आर/605/डी(नियुक्तियां)/2018]

एस. एस. एस शर्मा, निदेशक (स्थापना एवं सी.पी.)

**टिप्पण:-** मूल नियम तारीख 23 अप्रैल 2015 की अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 15 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-4 में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 8th March, 2019

**S.R.O. 41.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Remount and Veterinary Corps (Group ‘C’ Non-Industrial Posts) Recruitment Rules, 2015, namely :-

1. **Short title and commencement** .- (1) These rules may be called the Remount Veterinary Corps, Group 'C' Non-Industrial posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Remount and Veterinary Corps (Group 'C' Non-Industrial posts) Recruitment Rules, 2015,—

- (A) for rule 2 the following rule shall be substituted, namely :-

**“2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.-** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules”.-

- (B) in the Schedule, —

- (1) against serial number 1, relating to the post of Farm Munshi, —

- (i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in pay matrix
(4)
Level 1 (Rs.18,000-56,900)”. 

- (2) against serial number 2, relating to the post of Muster Writer,—

- (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :-

<p>“Level 1 (Rs.18,000-56,900)”.</p>
--

- (3) against serial number 3, relating to the post of Coachman,-

- (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

“Level 1  
(Rs.18,000-56,900)”.

- (ii) in column (10), sub item (ii) of item (a), for the words, figures and letters “Pay band-1, grade pay of Rs.1800”, the words, figures, brackets and letters “ level 1 (Rs.18,000-56,900) in the pay matrix” shall be substituted.

- (4) against serial number 4, relating to the post of Farm Jemadar,-

- (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

“Level 2  
(Rs.19,900-63,200)”.

- (ii) in column (11), “note 2” shall be omitted.

- (5) against serial number 5, relating to the post of Line Jemadar,-

- (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: –

“Level 2  
(Rs.19,900-63,200)”.

- (ii) in column (11), “note 2” shall be omitted.

- (6) against serial number 6, relating to the post of Head Vet Dresser,-

- (i) In column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely : –

“Level 2  
(Rs.19,900-63,200)”.

- (ii) in column (11), “note 2” shall be omitted.

- (7) against serial number 7, relating to the post of Vet Dresser,-

- (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: –

“Level 1  
(Rs.18,000-56,900)”.

- (8) against serial number 8, relating to the post of Weighman,

- (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

“Level 1  
(Rs.18,000-56,900)”.

- (9) against serial number 9, relating to the post of Beldar,

- (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

<p style="text-align: center;">“Level 1 (Rs.18,000-56,900)”.</p>
--

[F. No. 80270/Q/RV-1(Non-Industrial)/RR/605/D(Apptts)/2018]

S.S.S. SARMA, Director (Estt & CP)

**Note:** - The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-4 vide notification number S.R.O.15 dated the 23<sup>rd</sup> April 2015.